

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 फ़रवरी 2023

प्रश्न -1

भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल-डेकर बस हाल ही में किस निम्नलिखित में सेशहर में लॉन्च की गई थी?

- A) बेंगलुरु
- B) मुंबई
- C) नोएडा
- D) सूरत

सही उत्तर: B

भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई के बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) परिवहन निकाय के बड़े में शामिल किया गया था। ऑटोमोबाइल निर्माता अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी इन बसों का निर्माता है।

प्रश्न-2

ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान के लिए "ऑफ़लाइनपे" पायलट प्रोग्राम शुरू करने के लिए , निम्नलिखित में से किस बैंक ने क्रंचफ़िश के साथ साझेदारी की है?

- A) एक्सिस बैंक
- B) HDFC बैंक
- C) ICICI बैंक
- D) येस बैंक

सही उत्तर: B

RBIके नियामक सैंडबॉक्स कार्यक्रम के तहत व्यापारियों और ग्राहकों के लिए ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का परीक्षण करने हेतु, जिसे 'ऑफ़लाइनपे' के रूप में जाना जाता है , भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने क्रंचफ़िश के साथ साझेदारी में 'ऑफ़लाइनपे' नामक एक पायलट लॉन्च किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 फ़रवरी 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था?

- A) प्रफुल्ल प्रेमसुख छाजेड़
- B) नवीन एन.डी. गुप्ता
- C) देबाशीष मित्रा
- D) अनिकेत सुनील तलाटी

सही उत्तर: D

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने हाल ही में 2023-24 के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। अनिकेत सुनील तलाटी को ICAI का अध्यक्ष और रंजीत कुमार अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना गया है।

प्रश्न-4

निम्नलिखित में से किसने 2023 ग्रीनको हैदराबाद ई-प्रिक्स जीता, जो भारत में पहली फॉर्मूला ई रेस है?

- A) स्टीफन ओकोन
- B) जीन-एरिक वर्गेन
- C) जीन अलेसी
- D) पियरे गैसली

सही उत्तर: B

हैदराबाद ई-प्रिक्स भारत के पहले स्ट्रीट सर्किट में आयोजित की गई थी, जिसे हुसैन सागर झील के तट और NTR गार्डन द्वारा तैयार किया गया था। DS पैंक्से के जीन-एरिक वर्गेन ने इंडियन ई-प्रिक्स जीता है, इसके बाद एनविजनके रेसिंग ड्राइवर निक कैसिडी दूसरे और टैग हीर पोर्शे के एंटोनियो फेलिक्स दा कोस्टा तीसरे स्थान पर रहे हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 फ़रवरी 2023

प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किसने 2023 इलास ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता?

- A) झांग झिज़ेन
- B) झांग ज़े
- C) वू यिबिंग
- D) शांग जुनचेंग

सही उत्तर: C

वू यिबिंग ATPखिताब जीतने वाले चीन के पहले खिलाड़ी बने, उन्होंने घरेलू हीरो जॉन इस्नर को रोमांचक फाइनल में 6-7 (4), 7-6 (3) 7-6 (12) से हराकर इलास ओपन जीता। इससे पहले, कोई भी चीनी व्यक्ति पेशेवर एरा में कभी भी टूर-स्तरीय फाइनल में नहीं पहुंचा था या शीर्ष 10 प्रतिद्वंद्वी को हरा पाया था।

प्रश्न-6

आगामी वुमेंस प्रीमियर लीग में, निम्नलिखित में से किसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम द्वारा अपने मॅटर के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) अंजुम चोपड़ा
- B) झूलन गोस्वामी
- C) मोहम्मद कैफ
- D) सानिया मिर्जा

सही उत्तर: D

जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना आखिरी गैंडस्लैम खेलने वाली भारतीय टेनिस आइकन सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने आगामी वुमेंस प्रीमियर लीग में मॅटर के रूप में शामिल किया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 फ़रवरी 2023

प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था?

- A) ए.के.एम. नुरुल इस्लाम
- B) मोहम्मद शहाबुद्दीन
- C) शहाबुद्दीन अहमद
- D) शेख हसीना

सही उत्तर: B

मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सत्तारूढ़ अवामी लीग ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के आयुक्त और मुक्ति संग्राम सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन को इस पद के लिए नामित किया था।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली जी20 संस्कृति कार्य समूह (CWG) की बैठक आयोजित की जाएगी?

- A) असम
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) मध्य प्रदेश
- D) उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: C

संस्कृति मंत्रालय 22 से 25 फरवरी, 2023 तक खजुराहो, मध्य प्रदेश में पहली जी-20 संस्कृति कार्य समूह (CWG) बैठक का आयोजन कर रहा है। संस्कृति सचिवश्री गोविंद मोहन ने बताया कि इस अवसर पर खजुराहो नृत्य महोत्सव सांस्कृतिक प्रस्तुतियों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 21 फ़रवरी 2023

प्रश्न-9

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया?

- A) नई दिल्ली
- B) लखनऊ
- C) कोलकाता
- D) भोपाल

सही उत्तर: B

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया है। उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया और कार्यक्रम के दौरान इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया।

प्रश्न-10

आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए , उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) फ़्रांस
- B) मलेशिया
- C) सिंगापुर
- D) दक्षिण अफ़्रीका

सही उत्तर: C

सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता जापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समझौता जापन यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित सौदों में से एक है।